



सत्यमेव जयते

**राजस्थान राजपत्र  
विशेषांक**

साइरिक प्रकाशित

**RAJASTHAN GAZETTE  
Extraordinary**

Published by Authority

भाद्र 25, सोमवार, शाके 1941—सितम्बर 16, 2019  
Bhadra 25, Monday, Saka 1941—September 16, 2019

## भाग 6 (क)

नगरपालिकाओं संबंधी विज्ञप्तियां आदि।

**LOCAL SELF GOVERNMENT DEPARTMENT  
ORDER**

**Jaipur, September 12, 2019**

**F.10 (Elec) LSG/19/9959** .-In exercise of powers conferred under Section 6 and 10 of the Rajasthan Municipalities Act, 2009 and Rule 3 of Rajasthan Municipalities (Election) Rules, 1994 the Chief Municipal Officer Municipal Board Aklera has sent draft order of the ward formation and objections received on draft order with his comments regarding Municipal Board Aklera. After considering objections on the draft order of the ward formation, State Government agrees with comments of the Chief Municipal Officer and approves the draft order of ward formation as proposed by the Chief Municipal Officer.

**By Order,  
Ujjwal Rathore,  
Joint Secretary to Government.**

कार्यालय नगर पालिका अकलेरा जिला झालावाड (राज)

प्रोफार्मा-क

क्र. सं.	वार्ड सं.	वार्ड के सीमांकन का विवरण
1	1	नया पुलिस थाने सें त्रिलोक माली सें कृष्ण उपज मंडी सें पीछे का एरिया से दुर्गा मन्दिर सें शालीमार होटल सें लेखराज के मकान सें नहर की तरफ घुमते हुये ऋषभ भाया के कुए के मकान सें अन्दर के समस्त मकान सें नये थाने तक के समस्त मकानात।
2.	2	सोनी जी के कुए से साईनाथ प्रेस वालों के मकान से होता हुआ 80 फुट वाले रास्ते से रामचन्द्र लुहार से होते हुये धनराज ढोली के मकान से आईटीआई रोड पर पश्चिम दिशा मे चलकर मांगीलाल गाडरी के कुए से चलते हुये सोनी जी के कुए तक इस बीच के समस्त मकानात।
3	3-	शुक्ला की पूलिया के हेड पम्प सें रानीपूरिया वालों के खाली प्लाट सें उमर भाई के मकान से हनुमान मन्दिर गूजरी सें जाकीर भाई दहीखेडा वालों के मकान सें गोपाल सेन सें आजाद मास्टर के मकान सें शुक्ला की पूलिया तक के समस्त मकानात।
4	4	देवलालजी के मकान से पारीक सदन रमजान भाई के मकान से नानुराम लुहार के

		मकान से विरेन्द्रसिंह जी ग्राम सेवक के मकान से भैरुलाल कहार के मकान से एसटी छात्रावास से कालबेलियों की सम्पुर्ण बस्ती से दशहरा मैदान से हनुमान मन्दिर से घुमते हुये नहर के रास्ते भूरालाल के मकान से दुर्गाशंकर के मकान से मुन्ना भाई के मकान से होते हुये रशीद भाई के मकान से होते हुये आशिक आटा चक्की से होते हुये देवलालजी के मकान तक इस बीच के समस्त मकानात।
5.	5	अभिषेक पेट्रोल पम्प से महबूब साहब के मकान से नागर मेडिकल सें डॉ. शीला मेडम के मकान से अस्पताल के पीछे से प्रियदर्शनी स्कुल से प्रकाश शर्मा के मकान से होते से होते हुए मजूर मास्टर के मकान से जीमल भाई के मकान से निसार भाई के मकान से मोड़ू जी राठौर के मकान से रईस भाई के मकान से लतीफ भाई के पीछे की कॉलोनी तक के समस्त मकानात।
6.	6	माधोलालजी मीणा बासोदिया वालों के मकान से फूलचन्दजी मीणा के मकान से घनश्यामजी मेवाड़ा के मकान तक होते हुये फूलचन्दजी मीणा के मकान से घुमते हुए गंगाराम जी कानुनगो के मकान से होते हुय वापस गादिया व माधोलालजी मीणा बासोदिया वाले के मकान तक इस बीच के समस्त मकानात।
7	7-	द्वारकालाल मेवाड़ा के मकान से ओम जी गोस्वामी के मकान से होते हुये जुम्माभाई के मकान से साँई के मकान से रामबाबू सेन के मकान से बीरमचन्द बैरागी से भगवान बैरागी के मकान, प्रेमचन्द के मकान से महावीर सेन के सामने वाला, कल्याण मीणा के मकान से परमानन्द वैष्णव से श्रीजा फोटो वालों के मकान से पन्नालाल लोधा के मकान से शिव टेलर से शम्भु सेन से पूरीलाल गाड़री के मकान से होते हुये नन्दकिशोर मेवाड़ा के मकान से रत्नलाल मीणा के मकान से बद्रीलाल जाटव के मकान से होते हुये रामचरण जी बैरागी, कैलाश कल्याण बैरागी सरखड़िया वालों के मकान से कन्हैयालाल भील से बाबू ढोली के मकान से जुम्मा भाई के मकान से कन्हैयालाल पारेता के मकान से बाबूलाल राव के मकान से मुन्ना गनी से द्वारकालाल मेवाड़ा के मकान तक के समस्त मकानात।
8	8	नई बस्ती कब्रिस्तान से मोहनलाल सेन के मकान से जाहिद भाई अध्यापक के मकान से नन्ना मास्टर से धन्नीबाई के मकान से राठौर चक्की वालों के मकान से हनीफ भाई के मकान के मकान से सगीर के मकान से शफीक भाई कुकलवाडा वालों से पप्पू भील की पूरी कॉलोनी के समस्त मकानात।
9.	9	एसबीबीजे बैंक से दानमल पटवारी खजूरी के मकान से आईटीआई रोड सावंरिया कॉलोनी श्रीकिशन पटवारी के मकान से आईटीआई भवन से हनुमान मन्दिर से रुस्तम भाई के गोदाम व शुक्ला जी पुलिया से होते हुये वापस एसबीबीजे बैंक तक इस बीच के समस्त मकानात।
10	10	कन्हैयालाल जी पचोला वालों के मकान से देव दुध डेयरी से धन्ना जी मीणा कुकलवाडा वालों के मकान से मांगीलाल जी बागरी के मकान से करतार नागर के मकान से रामस्वरूप अध्यक्ष गोपाल बिहार से राजू गाड़री से मांगीलाल बागरी से लाल बहादूर स्कुल से तेली की चक्की माणक बागरी से कन्हैयालाल पचोला वालों तक के समस्त मकानात।

11	11	भालता वाले वकील साहब के मकान सें साविंया ऑटो पार्ट्स वालों सें अशोक अग्रवाल सें भागचन्द जी मीणा के मकान सें गैस ऐजेन्सी की तरफ सें नई टंकी वाला सम्पूर्ण मोहल्ला तक के समस्त मकानात।
12	12	गायत्री मन्दिर सें बड़ौदा बैंक सें होते हुये पूलिस चैकी सें कोमल वर्मा सें विजय पारेता से घुम कर राकेश बागरी से राकेश हरिजन तक के समस्त मकानात।
13	13	दिलीप जैन की दुकान से होते हुये नाथू साहु के मकान से रमेशजी अद्यापक के मकान से होते हुये पांचु माली के कुए से होते हुये गडार के रास्ते से होते हुये केवची के रोड लेकर वापस घूमते हुये मांगीलाल खाती के आरामशीन से होते हुये सिनियर सेकेन्ड्री स्कूल के कोने तक रोड से घूमते वापस दिलीप जैन के भीतर के समस्त मकानात।
14	14	सुख बिहार गेस्ट हाउस से तेलियान समाज की दुकान से एडीजे साहब के बंगले से जगदीश जी गुलखेड़ी वाले की दुकान से घुमकर छितरमल गोयल के मकान से मजार से घूमते हुये छोटुलाल जी बागरी बक्सु बागरी की दुकान मकान से सुख बिहार गेस्ट हाउस तक इस बीच के समस्त मकानात।
15	15	असलम भाई के मकान से चलकर ईस्माईल के मकान से रोशनभाई के मकान वाली लाईन से होता हुआ रामप्रसाद कलर से गोपाल बिहारी नामदेव से शराब कम्पनी से लालचन्द कोठरी के मकान से आर्शीवाद लॉज शिवजी गोयल से दिनेश कम्पान्डर से होते हुये मजार से होते हुय एनजेरएसएस हॉस्पिटल से होते हुये असलम भाई के मकान तक इस बीच के समस्त मकानात।
16.	16	बस स्टेण्ड त्रिलोक राणा के मकान से बल्लभदास ओमप्रकाश की दुकान से वसुन्दरा लॉज से परमा माली की दुकान से निसार साहब के मकान से खेजंडा वाले के मकान से राजेन्द्र गौतम के मकान से पोटर साहब के मकान से कालू सरपंच के मकान से मोहनजी कूकलवाड़ा के मकान से गोपाल सुनार के मकान से मोहन जी खोली वालो के मकान से मांगीलाल पान वाले की दुकान से घूमते हुऐ त्रिलोक राणा के मकान तक इस बीच के समस्त मकानात।
17.	17	सुल्तान भाई के मकान सें प्रवीण लखारा के मकान सें रामचन्द मेरहा सें कान्हा कहार सें होते हुये रजाक भाई कबाड़ी सें रमजान भाई लाईट वालों सें गुलशेर के मकान सें होते हुये मुकेश हरिजन सु सल्तान भाई के मकान तक के समस्त मकानात।
18.	18	बाबूलाल महुआ खों वालों के मकान सें हिरों के शौरूम से अनूप हरिजन के मकान सें हकीम भाई के मकान सें राजेन्द्र जी पटवारी के मकान सें गुलाबचन्द लोधा के मकान सें इकबाल वैध के मकान सें बाबूलाल जी तक के समस्त मकानात।
19.	19.	रामलाल जी मीणा के मकान से होंडा शौरूम सें अमृतखेड़ी वालों के मकान सें अमीम भाई लाईट वालों के मकान सें गोरधन कलाल के मकान सें मुकेश राठौर के मकान सें मनभरी के मकान सें मांगीलाल गल्ले वालो सें हिना पार्षद के मकान तक के समस्त मकानात।
20.	20.	मिलेनियम कॉलेज से होते हुये बंजारा बावड़ी से होते हुये पुराना थाना दुर्गलालजी

		मेघवाल के मकान से होते हुये अग्रवाल धर्मशाला से होते हुये बिजली विभाग से होते हुये देवकरणजी पारेता के मकान से होते हुये राकेशजी पटवारी के मकान से होते हुये आवास मंडल कॉलोनी से होते हुये वापस मिलेनियम कॉलेज तक इस बीच समस्त मकानात।
21.	21.	श्री कैलाश जी मीणा पूर्व विधायक के मकान सें नगर पालिका रेंजरी के पीछे के समस्त मकान महेश जी शर्मा ल्हास वालों के मकान से होते हुये प्रभूलाल जी के मकान सें माधोलाल जी के मकान से घुमते मन्ना पटवारी के मकान सें सुराना मेडम के मकान सें सोनी भोजनालय वालों के मकान सें सिराज भाई के मकान सें इस्लाम भाई सें माईक वालें चाचा सें देवीलाल सें अर्जून के मकान से श्री कैलाश जी मीणा पूर्व विधायक के मकान तक के समस्त मकानात।
22.	22.	जलदाय विभाग सें मीणा धर्मशाला सें बीएसएनएल टावर के पीछे के समस्त मकान सें मामा बंसन्त सें शुक्ला सें यादव मन्दिर की दुकानों से अशोक जी के मकान रेस्ट हाउस सें जलदाय विभाग तक के समस्त मकानात।
23	23	तहसील के कोने से डॉक्टर माथुर साहब के मकान से मेन बाजार होते हुये हरीशचन्द जी मलेरिया वालो के मकान से मिडिल स्कूल से होते हुये बालचन्द जैन के मकान से होते हुये राजु आईसकेन्डी से घासीलाल जी के मकान से होते हुये वापस तहसील के कोने तक इस बीच के समस्त मकानात।
24.	24	एईएन पीडब्ल्यूडी के बंगले से एसडीएम साहब के बंगले से रामबिलास न्याती के मकान से शीतला माता मन्दिर से पुराना नगर पालिका भवन मंगत राय ठेकेदार श्याम मनोहर के मकान से एसडीएम साहब की बाउन्ड्री के पीछवाडे से होते हुये हनुमान मन्दिर से एईएन पीडब्ल्यूडी के बंगले तक इस बीच के समस्त मकानात।
25.	25	पोस्ट ऑफिस सें अब्बू जी मो० के मकान सें रामदेव जी मन्दिर सें भवंतलाल मेघवाल के मकान सें नन्द जी खटीक, रहीम वकील साहब, कमाल मोहम्मद सें बिरधीबाई के मकान सें पोस्ट ऑफिस तक के समस्त मकानात।
26.	26	बाबा रामदेव जी के मन्दिर सें प्रेम खाती की आरामशीन सें बड़ा कुओं वालों के मकान सें शंकर नाई के मकान सें बाबू मेन्बर के मकान सें शंकर नाई के मकान सें बलराम के मकान के पीछे के सम्पूर्ण मकान सें दिपक जेठी के मकान तक सें समस्त मकानात।
27.	27	मालीयों की धर्मशाला से मांगटा रास्ते से चलते हुये नाले से होते हुये तालाब तक व पशुधन होते हुये जैन मन्दिर से होते हुये रोड रोड चलकर वापस मालियों की धर्मशाला के अन्दर के समस्त मकानात।
28	28	भागचन्द जी मीणा पथरी वाले के मकान से होते हुये तिलक स्कूल से होते हुये बीजासन माता जी मन्दिर होते हुये नागर मेडिकल होते हुये जैन मन्दिर से होते हुये मोहनजी देवरी वालो के मकान से दुर्गाशंकर एडवोकेट होते हुये कैलास जी देवरी वालो के मकान से होते हुये गिर्राज जी की कॉलोनी के रास्ते से होते हुये वापस भागचन्द मीणा के मकान तक इस बीच समस्त मकानात।

29	29	रामदेव धोबी के मकान से विजय न्याती के मकान से महावीर सोनी के मकान से गिराज जी के मकान से कोली मोहल्ला सागर की बाड़ी से जीमल भाई डीलर बोहरा मस्जिद रामप्रसाद के मकान से बाउडी होते हुये रामदेव धोबी के मकान तक के समस्त मकानात।
30	30	भारत भुषण शर्मा के मकान से शेर मोहम्मद नुर मोहम्मद की दुकान होते हुये चांदमल जी के मकान से होते हुये शफी भाई के मकान से होते हुये कन्हैयालाल जी के मकान से होते हुये, सुनारों के कुईया से होते हुये घाटौली वाले के मकान से होते हुये वापस भारत भुषण जी के मकान तक इस बीच के समस्त मकानात।
31	31	रामप्रताप जी पांचाल के मकान से नाईयों के मन्दिर से सरफ मास्टर की चक्की से रईस मास्टर के मकान से रशीद भाई के मकान से काजी की गली भिति मोहल्ला केवडिया कटला से रामप्रताप जी पांचाल के मकान तक के समस्त मकानात।
32	32	गुरुकुल स्कूल से मस्जिद की गली रोडु कुम्हार से कलालों के मन्दिर से अख्तर मामा के मकान से गुरुकुल स्कूल तक के समस्त मकानात।
33	33	दरगाह से सलीम बाबा के मकान से बाबूलाल महुआखेड़ा वालों के मकान से होते हुये सलीम भाई के मकान से होते हुये पीर टेलर के मकान से होते हुये बम पूलिस के स्कूल तक के समस्त मकानात।
34.	34	बिलकिस के मकान से बफाती फकीर के पीछे के समस्त मकान से आरीफ भाई ड्राईवर से श्याम पारेता मेघवाल की बस्ती से जीमल भाई के मकान से जगदीश के मकान से सोनी मन्दिर तक के समस्त मकानात।
35.	35	कब्रिस्तान से टापरिया से सरकारी स्कूल से होते हुये टापरियों से शिव मन्दिर तक के समस्त मकानात।

अधिशाषी अधिकारी  
नगर पालिका अकलेरा

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।